

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 821]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 18, 2002/भाद्र 27, 1924

No. 821]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 18, 2002/BHADRA 27, 1924

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2002

का.आ. 1009(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) के नियम 5 के उप नियम (3) के खण्ड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप धारा (1) और उप धारा (2) के खंड (v) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 60 (अ), तारीख 27 जनवरी, 1994 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार जैसी भी स्थिति हो द्वारा जब तक पर्यावरण संबंधी अनापत्ति न दे दी गई हो तब तक किसी परियोजना के किसी क्रियाकलाप के विस्तार या आधुनिकीकरण या आरम्भ किए जाने के संबंध में कतिपय निर्बंधन और प्रतिषेध अधोपेक्षित किए थे,

और उक्त नियमों के नियम 5 के उप नियम (4) में यह उपबंध है कि जब कभी केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है तो वह उक्त नियमों के नियम 5 के उप नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगी,

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त नियमों के नियम 5 के उप नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त नियमों के नियम 5 के उप नियम (4) के साथ पठित उक्त अधिनियम की उप धारा (1) और उप धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्-

- (1) पैरा 2 के उप पैरा 1 की मद (क) में अंत में निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्-

“(vi) सबसे नजदीकी आबादी वाले गांव की सीमा, चारागाह और कच्छ वनस्पति, मंग्रोव (1000 वर्ग मीटर के न्यूनतम क्षेत्र के साथ) जैसे पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों, कोरल, प्रवाल भित्तियों, राष्ट्रीय उद्यानों, मैरीन उद्यानों, अभयारण्यों, आरक्षित वनों, मत्स्य प्रजनन और अंड जनन स्थलों और अन्य समुद्री जीवन की सीमा से 10 किलोमीटर से अधिक के तट से दूर खोज संबंधी क्रियाकलाप”

- (ii) उप पैरा II में मद (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(च) हरित क्षेत्र हवाई पत्तन, पेट्रो-रसायन कम्प्लेक्स और शोधनशालाएं और मेघा तापीय वैद्युत संयंत्र”

- (iii) अनुसूची I में, -

- (क) मद 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्

“4 कच्चे तेल और उत्पाद पाइप लाइनों सहित पेट्रोलियम शोधनशालाएं

- (ख) मद 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्-

“6 कीटनाशी (तकनीकी) और मध्यवर्ती”

- (ग) मद 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी अर्थात्-

“8 मध्यवर्ती वस्तुओं सहित प्रपुंज औषधि और फर्मास्यूटिकल्स”

- (घ) मद 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-

“26 रंजक और मध्यवर्ती”

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[सं. अड-12013/4/89-आई ए-1 (पार्ट)]

३. श्री. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना सं० का०आ० 60 (अ) 27 जनवरी, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् सा० का० 356 (अ) तारीख 4 मई 1994, सा० का० 318 (अ) तारीख 10 अप्रैल, 1997 का०आ० 73 (अ) तारीख 27 जनवरी, 2000 का०आ० 1119 (अ) तारीख 13 दिसम्बर 2000, का०आ० 737 (अ) तारीख 1.8.2001, का०आ० 1148 (अ) तारीख 21.11.2001 और का० आ० 632 (अ) दिनांक 13.6.2002 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2002

S.O. 1009(E).—whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests No. S.O. 60 (E), dated 27th January, 1994 (hereinafter referred to as the said notification) issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, (hereinafter referred to as the said Rules), the Central Government imposed certain restrictions and prohibition on the expansion or modernization of any activity or the undertaking of any project, unless environmental clearance has been accorded by the Central Government or the State Government as the case may be;

And whereas, sub-rule (4) of rule 5 of the said Rules provides that, whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said Rules;

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the said Act read with sub-rule (4) of rule 5 of the said Rules, the Central Government hereby makes the following further amendments in the said notification, namely, -

In the said notification, -

- (i) In paragraph 2, - in sub-paragraph I, in item (a), the following item

shall be inserted at the end namely:-

“(vi) offshore exploration activities beyond 10 kms from the nearest habitated village boundary, *gaothans* and ecologically sensitive areas such as mangroves (with a minimum area of 1000 sqm), corals, coral reefs, national parks, marine parks, sanctuaries, reserved forest and breeding and spawning grounds of fish and other marine life”

- (ii) In sub-paragraph (11) after item (e), the following item shall be inserted, namely : -

“(f) Greenfield airports, petrochemical complexes and refineries and mega thermal power plants”

- (iii) In Schedule I, -

- (a) for item 4 and entries relating thereto, the following item shall be substituted, namely : -

“4 Petroleum refineries including crude and product pipelines; isolated petroleum product storages”

- (b) for item 6 and entries relating thereto, the following item shall be substituted, namely : -

“6 Pesticides (technical) and intermediates”

- (c) for item 8 and entries relating thereto, the following item shall be substituted, namely : -

“8 Bulk drugs and Pharmaceuticals including intermediates”

- (d) for item 26 and entries relating thereto, the following item shall be substituted, namely : -

“26 Dyes and Intermediates”

2. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. Z-12013/4/89-IA-I(Part)]

Dr. V. RAJAGOPALAN, Jt. Secy.

Foot Note : The Principal Notification was published vide No.S.O.60(E) dated the 27th January, 1994 and subsequently amended vide number S.O. 356 (E) dated the 4th May, 1994, S.O. 318 (E) dated the 10th April, 1997, S.O. 73(E) dated the 27th January, 2000, S.O. 1119 (E) dated the 13th December, 2000, S.O. 737 (E) dated the 1st August, 2001, S.O. 1148(E) dated 21st November, 2001 and S.O.632(E) dated 13th June, 2002.